



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2005 (ज्येष्ठ 21, 1927)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2005 (JYĀISTHA 21, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सेना शाखा

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2005

सं. 289, दिनांक 20 मई 2005—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

सूबेदार (एस के टी)

नायब सूबेदार सुधाकर देसाई (जेसी-641685डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार केशव प्रसाद गुप्ता (जेसी-641699डब्ल्यू), 18 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-641700ए), 16 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-641702एल), 18 दिसम्बर 2004

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रमा शंकर चौधरी (जेसी-641930एन), 01 जनवरी 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-641879वाई), 21 दिसम्बर 2004

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अखिलेश्वर सिंह (जेसी-641709पी), 18 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार केदार नाथ सिंह (जेसी-641743पी), 18 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम सागर (जेसी-641745ए), 03 जनवरी 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सेवा सिंह (जेसी-641712पी), 23 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बसीर अहमद नादफ़ (जेसी-641714ए), 18 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरचरन सिंह (जेसी-641747एल), 25 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगंत राम (जेसी-641748एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार इन्द्रमणी सिंह (जेसी-641749डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जेसी-641715एच), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-641716एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार राधा कृष्णन पी (जेसी-641751एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मोठो चिट्टी बाबू (जेसी-641587डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राकेश प्रसाद (जेसी-641689एम), 27 नवम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दूध नाथ सिंह (जेसी-641691के), 26 नवम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रत्न चन्द धीमन (जेसी-641737एफ), 18 अक्टूबर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ब्रिज मोहन सिंह (जेसी-641698एन), 13 जनवरी 2005

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार किशन लाल पुरी (जेसी-641740एफ), 19 जनवरी 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धरम बीर सिंह (जेसी-641703एन), 21 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार तेज सिंह (जेसी-641704डब्ल्यू), 20 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुख देव (जेसी-641708एम), 22 दिसम्बर 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अशोक कुमार द्विवेदी (जेसी-641750एल), 31 जनवरी 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी)

हवलदार बी एन एस यादव (सं. 6377643एफ अब जेसी-663054एन), 11 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अजय कुमार (सं. 6378155एल अब जेसी-663055डब्ल्यू), 04 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुभरा बिश्वास (सं. 6377612एफ अब जेसी-663056वाई), 05 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार ईस्लाम खान (सं. 6378003के अब जेसी-663057एफ), 01 फरवरी 2005

हवलदार रामेश्वर ओधर (सं. 6378823पी अब जेसी-663058के), 02 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पवन कुमार सिंह (सं. 6377301एन अब जेसी-663059एम), 19 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 6378666पी अब जेसी-663060एफ),  
01 फरवरी 2005

हवलदार आर बी सिंह (सं. 6385575एन अब जेसी-663061के),  
21 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बलवान सिंह (सं. 6378441एम अब जेसी-663062एम),  
19 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बिश्वा मोहन साहू (सं. 6386071एम अब जेसी-663063पी),  
19 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज किशोर नायक (सं. 6385958ए अब जेसी-  
663064एक्स), 01 फरवरी 2005

हवलदार सन्तोष कुमार साहू (सं. 6386073एक्स अब जेसी-  
663065ए), 01 मार्च 2005

हवलदार सुखबीर सिंह दहिया (सं. 6378110एल अब जेसी-  
663082ए), 03 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार विजय सिंह (सं. 6377567ए अब जेसी-663083एच),  
21 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज बहादुर (सं. 6377163एक्स अब जेसी-663084एल),  
16 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ओम पाल (सं. 6377530वाई अब जेसी-663085एन),  
02 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बालम सिंह रावत (सं. 6376997एक्स अब जेसी-  
663086डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

हवलदार जमीरुल हक (सं. 6378924के अब जेसी-663087वाई),  
01 फरवरी 2005

हवलदार अरुण कुमार साहू (सं. 6385955एम अब जेसी-  
663088एफ), 22 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बन्सी धर पल्लई (सं. 6385959एक्स अब जेसी-  
663089के), 01 मार्च 2005

हवलदार घनश्याम बैरीक (सं. 6385960एक्स अब जेसी-  
663090वाई), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार (एस के टी)

हवलदार नारायणन बी टी (सं. 6376776एल अब जेसी-662999एल),  
24 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एस मनी (सं. 6383706पी अब जेसी-663000एम),  
24 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 28 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार श्री कुमार आर (सं. 6383958एफ अब जेसी-663001पी),  
25 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 21 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार इन्द्र लाल वर्मा (सं. 6385029एफ अब जेसी-  
663002एक्स), 27 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज कुमार (सं. 6383890एल अब जेसी-  
663003ए), 25 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 15 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सिन्दे संजय सम्भाजी (सं. 6384979के अब जेसी-  
663004एच), 26 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 15 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार गिरधारी सिंह (सं. 6385286वाई अब जेसी-  
663005एल), 01 मई 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार मधु कान्त झा (सं. 6384420एम अब जेसी-663006एन),  
25 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार एस देवा राजन (सं. 6384286एम अब जेसी-  
663007डब्ल्यू), 25 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बक्शीश सिंह (सं. 6382938एफ अब जेसी-663008वाई),  
29 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राऊत दनयनेश्वर देवीदास (सं. 6385524पी अब जेसी-  
663009एफ), 25 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार शाशन्क कुमार घोष (सं. 6383425वाई अब जेसी-  
663010डब्ल्यू), 31 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रापीपुदी श्रीनीवासा राव (सं. 6384090वाई अब जेसी-  
663011वाई), 31 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार शिवाजी लक्ष्मण चावन (सं. 6376876पी अब जेसी-  
663012एफ), 31 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार एल मोहन राव (सं. 6385397डब्ल्यू अब जेसी-663013के),  
01 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कैलाश चन्द (सं. 13975666डब्ल्यू अब जेसी-663014एम),  
18 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बचन सिंह (सं. 6384369एक्स अब जेसी-663015पी),  
24 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बलराम पैटर (सं. 6384610वाई अब जेसी-663016एक्स),  
02 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बेनी (सं. 6385373एम अब जेसी-663017ए),  
26 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रजेश बाबू (सं. 6385319वाई अब जेसी-663018एच),  
26 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम शंकर दास (सं. 6384412एन अब जेसी-663019एल),  
01 जनवरी 2005

हवलदार जार्ज फिलिप (सं. 6283973डब्ल्यू अब जेसी-663020ए),  
24 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सी एच वी वी सत्यनारायन (सं. 6384129ए अब जेसी-  
663021एच), 27 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 6384798वाई अब जेसी-663022एल),  
01 जनवरी 2005

हवलदार पन्वी लाल (सं. 6385258एम अब जेसी-663023एन),  
02 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दिलीप कुमार तिवारी (सं. 6381763एक्स अब जेसी-  
663024डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005 \*

हवलदार करन सिंह (सं. 6376577एक्स अब जेसी-663040एन),  
07 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 29 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश वी (सं. 6376934पी अब जेसी-663041डब्ल्यू),  
25 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 21 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राना प्रवीन सिंह कीरत सिंह (सं. 6383248के अब जेसी-  
663042वाई), 24 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चन्द्रा (सं. 6384736वाई अब जेसी-663043एफ),  
07 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सय अब्दुल शाह सय नैमुल्ला (सं. 6383178डब्ल्यू अब  
जेसी-663044के), 25 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राकेश कुमार (सं. 6385451वाई अब जेसी-663045एम),  
25 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार फतेह सिंह सुरा (सं. 6384801एन अब जेसी-663046पी),  
27 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुन्दर लाल (सं. 6384808एक्स अब जेसी-663047एक्स),  
25 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अब्राहम ठाराकन (सं. 6384618एल अब जेसी-  
663048ए), 26 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राधाक्रिशनन जी (सं. 6382160एन अब जेसी-  
663049एच), 03 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रह्म प्रकाश (सं. 6383763डब्ल्यू अब जेसी-663050एक्स),  
31 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुवानकर चौधरी (सं. 6381264एच अब जेसी-  
663051ए), 31 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद कुमार सिंह (सं. 6383898एक्स अब जेसी-  
663052एच), 25 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 6384340पी अब जेसी-663053एल),  
31 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

एम.एम. सिंह  
अवर सचिव

सं. 290, दिनांक 19 मई 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :--

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार उमा कान्त (जेसी-747575एम), 13 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार कृष्णा प्रसाद पाण्डे (जेसी-747760ए), 01 जनवरी 2005

सूबेदार राम प्रताप उपाध्याय (जेसी-222217एन), 20 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार जगन्नाथ प्रसाद (जेसी-747648एम), 05 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार अरुणि कुमार दास (जेसी-747734वाई), 01 फरवरी 2005

सूबेदार नारायणन ई वी (जेसी-747408एन), 17 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार नबा किशोर मोहन्ती (जेसी-747807ए), 27 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार मेजर आरटीजन (ई सी) के रैंक में

सूबेदार फ्रान्सिस पी व्ही (जेसी-750333पी), 10 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार सतिन्द्रा सिंह (जेसी-750683एफ), 31 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में

सूबेदार रामदेवा राम (जेसी-748557डब्ल्यू), 12 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार रवी कुमारन टी (जेसी-748120एच), 11 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार मेजर रिकवरी मैक के रैंक में

सूबेदार राज कुमार राम (जेसी-748024एन), 18 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार एल सी एस पी राज भर (जेसी-755003ए), 06  
सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार हरि किशन (जेसी-755254के), 11 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

नायब सूबेदार सुबल किशोर पाल (जेसी-755224एम), 01 जनवरी  
2005/01 अक्टूबर 2004×

नायब सूबेदार आर बी परीक (जेसी-753882ए), 15 जनवरी 2005/23  
जून 2004×

नायब सूबेदार मदन गुप्ता (जेसी-755310एक्स), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार एन के स्वैन (जेसी-755669वाई), 14 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

नायब सूबेदार पी वीरप्पन (जेसी-755286एम), 18 जनवरी 2005/01  
जनवरी 2005×

नायब सूबेदार डी आर राधाकृष्णन (जेसी-755242पी), 19 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार एस एस कनूर (जेसी-754389वाई), 19 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार समरपाल सिंह (जेसी-755453एक्स), 01 फरवरी 2005×

नायब सूबेदार बलराम (जेसी-755006एन), 01 जनवरी 2005/23 जून 2004×

नायब सूबेदार उपीन्दर कुमार (जेसी-754801एफ), 27 दिसम्बर 2004/23 जून 2004×

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-755309एच), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार टी पी भट्टराय (जेसी-755706एफ), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार पाला राम (जेसी-755250एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार शिव नारायण दुडि (जेसी-755248डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार तरुण चन्द्र दास (जेसी-751404एक्स), 18 जनवरी 2005/23 जून 2004×

नायब सूबेदार ठाकुर एस बी (जेसी-755336एम), 20 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005×

नायब सूबेदार ए के कुशावाहा (जेसी-755461डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार पी एस ग्लाडविन (जेसी-755447के), 01 फरवरी 2005

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार मालि बाजिराव निवृट्टि (जेसी-755456एल), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-755457एन), 01 फरवरी 2005

सूबेदार आरटीजन ई सी के रैंक में

नायब सूबेदार सभापति यादव (जेसी-756967एफ), 01 जनवरी 2005/01 जून 2004×

नायब सूबेदार दीन बन्धु पाल (जेसी-757275वाई), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्रा (जेसी-757234पी), 01 फरवरी 2005

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार संत राम (जेसी-753771एच), 09 अक्टूबर 2004/01 अगस्त 2004×

नायब सूबेदार बिगन दास (जेसी-754175एच), 12 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार ग्यान सिंह (जेसी-753772एल), 31 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार हन्स राज (जेसी-754242एच), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार के के चौधरी (जेसी-754485एन), 01 फरवरी 2005

सूबेदार टेक्नीकल (एवियेशन) के रैंक में

नायब सूबेदार अर्धेन्दु घोष (जेसी-755608एफ), 01 फरवरी 2005

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-753780के), 05 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005×

नायब सूबेदार रमेश चन्द्रा (जेसी-753327एम), 26 जनवरी 2005/23 नवम्बर 2004×

सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

नायब सूबेदार स्वपन कुमार जाश (जेसी-756557एल), 14 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार भरत सिंह यादव (जेसी-757049एफ), 01 फरवरी 2005

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

ए रॉय (सं. 14554301डब्ल्यू अब जेसी-759515के), 09 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

राजन्द्रा प्रसाद मिश्रा (सं. 14556028एल अब जेसी-759516एम), 07 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

एम डी आस्लाम (सं. 14555374पी अब जेसी-759481वाई), 03 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

लालजी यादव (सं. 14554395वाई अब जेसी-759479के), 27 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

रनदिप सिंह (सं. 14555675वाई अब जेसी-759482के), 22 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

राजपाल सिंह (सं. 14541656एच अब जेसी-759497एम), 10 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

एम फ्रान्सिस पॉल सुन्दाराज (सं. 14546863वाई अब जेसी-759490एच), 20 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

बी मृत्युञ्जय रेड्डी (सं. 14546678एल अब जेसी-759489एच), 01 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

हवलदार से नायब सूबेदार ए व्ही एफ (ए एफ) के रैंक में

के विजय कुमार रामदास (सं. 14538113एल अब जेसी-759470पी), 11 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

एस एस ईस्लाम (सं. 14543202एन अब जेसी-759473एच), 21 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार फिटर (ए एफ वी/एडी) के रैंक में  
माबुद अली (सं. 14556810एन अब जेसी-759465के), 29 नवम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिष्ट के रैंक में  
अजीम खान (सं. 14541551वाइ अब जेसी-759575एन),  
22 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में  
के ए अहमद (सं. 14555253एन अब जेसी-758512डब्ल्यू),  
11 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में  
आयाप्पा (सं. 14605368ए अब जेसी-759536ए), 22 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

मुरलीधरन एम बी (सं. 14604604के अब जेसी-759533एम),  
दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

श्रीशान्त राम नागायच (सं. 14603558एन अब जेसी-759524एल),  
16 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

श्रीकान्त सिंह (सं. 14607802ए अब जेसी-759546के), 11 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

ओम प्रकाश सिंह (सं. 14605197वाइ अब जेसी-759537एच),  
24 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

गिरीधारी लाल गुरजर (सं. 14608018वाइ अब जेसी-759548पी),  
14 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

परमजीत (सं. 14603749एच अब जेसी-759525एन), 13 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

रामानन्द यादव (सं. 14604593एच अब जेसी-759532के),  
08 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

गोबिंद नारायण प्रसाद (सं. 14591889ए अब जेसी-759519ए),  
16 दिसम्बर 2004/10 जून 2004×

मेथ्यू एस (सं. 14608170एम अब जेसी-759547एम), 21 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

सुरेन्द्रा कुमार (सं. 14603817के अब जेसी-759527वाइ),  
13 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

जॉर्ज एम के (सं. 14592094वाइ अब जेसी-759520पी),  
15 दिसम्बर 2004/10 जून 2004×

योगेश कुमार त्रिपाठी (सं. 14606712एम अब जेसी-759541एल),  
18 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

आर रवि (सं. 14604290एन अब जेसी-759531एफ), 23 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

शम्मी रायना (सं. 14605244एल अब जेसी-759535एक्स),  
11 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

मनोज शुक्ला (सं. 14604148के अब जेसी-759529के), 13 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वेहिकल के रैंक में  
सतपाल सिंह (सं. 14611227एफ अब जेसी-759518एक्स),  
13 दिसम्बर 2004/06 मई 2004×

गुरजन्त सिंह (सं. 14580255के अब जेसी-759549एक्स),  
15 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (आर ओ)  
इलूमलाई के (सं. 14584666ए अब जेसी-759551पी), 13 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

क्रिपा नन्द मिश्रा (सं. 14588832ए अब जेसी-759552एक्स),  
21 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

रनवीर सिंह (सं. 14590411डब्ल्यू अब जेसी-759553ए), 09 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

महिन्दरन एम (सं. 14596962एक्स अब जेसी-759554एच),  
13 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

फूल कुमार सिंह (सं. 14597231डब्ल्यू अब जेसी-759555एल),  
13 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

अब्दुल सबूर वरभूया (सं. 14597892डब्ल्यू अब जेसी-759556एन),  
11 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर  
गुप्ते दिलीप पंढरिनाथ (सं. 14595042एन अब जेसी-759408एच),  
16 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2003×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट्रीशियन  
उमेश कुमार सिंह यादव (सं. 14591466एम अब जेसी-  
759560डब्ल्यू), 13 दिसम्बर 2004/03 अक्टूबर 2004×

संजय सिंह (सं. 14591325एक्स अब जेसी-759559एफ), 17  
दिसम्बर 2004/03 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (जीसीई)  
विनोयन जी (सं. 14596767ए अब जेसी-759561वाइ), 13 दिसम्बर  
2004/01 नवम्बर 2003×

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में  
नायब सूबेदार बी बर्मन (जेसी-755312एच), 01 जनवरी 2005  
नायब सूबेदार हकीम सिंह (जेसी-754798एम), 08 दिसम्बर 2004/  
01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार पी आर सिंह (जेसी-755489डब्ल्यू), 01 जनवरी  
2005

नायब सूबेदार आनन्दन एम (जेसी-755234डब्ल्यू), 25 नवम्बर  
2004/01 नवम्बर 2004×

नायब सूबेदार ए के झा (जेसी-755251डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार जहान सिंह (जेसी-755141एफ), 31 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-755005एल), 01 जनवरी 2005/23 जून 2004×

नायब सूबेदार हरि करण सिंह (जेसी-755252वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार ए प्रकाश राव (जेसी-755247एन), 03 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार एस एन सिंह (जेसी-755311ए), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रमेश चन्द्रा (जेसी-755249वाई), 01 जनवरी 2005

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार तारकेश्वर सिंह (जेसी-756966वाई), 01 जनवरी 2005/01 जून 2004×

नायब सूबेदार ई बी जयंत (जेसी-756969एम), 01 जनवरी 2005/01 जून 2004×

नायब सूबेदार चन्तन सिंह (जेसी-757091ए), 25 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004×

नायब सूबेदार विश्वनाथ सिंह (जेसी-757054एम), 01 जनवरी 2005/01 जून 2004×

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार पी एस दौलत (जेसी-754037एफ), 07 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

सूबेदार टेक्नीकल (एवियेशन) के रैंक में

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-755399पी), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-753709डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद (जेसी-756982डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार राम शरण (जेसी-756977एल), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार सूरज भान (जेसी-756946एल), 28 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार पुन्वसी (जेसी-756980एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार भवानी मिश्रा (जेसी-756979डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी (जेसी-756981एन), 03 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005×

### सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार राजेश कुमार मिश्रा (जेसी-749322डब्ल्यू), 12 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार सोम शर्मा (जेसी-750700डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार राम भक्त त्रिपाठी (जेसी-750697एफ), 27 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार तिवारी (जेसी-749321एन), 31 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार जयशंकर उपाध्याय (जेसी-749323वाई), 11 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार मनोज कुमार पांडे (जेसी-749319डब्ल्यू), 13 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार ब्रिज मोहन शर्मा (जेसी-750702एफ), 09 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार दिनेश कुमार दुबे (जेसी-749189वाई), 13 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार चन्द्र धर पांडे (जेसी-749320के), 11 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार देव नारायण मिश्रा (जेसी-749324एफ), 11 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार राम प्रवेश मिश्रा (जेसी-750701वाई), 24 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार गोविन्द प्रसाद चतुर्वेदि (जेसी-750696वाई), 06 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार शिव शंकर सिंह (जेसी-750699एम), 16 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

फजल खान (सं. 14549047डब्ल्यू अब जेसी-759496के), 22 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

टी पी सिंह (सं. 14540591एन अब जेसी-759570ए), 24 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

रविन्द्रन के (सं. 14540502के अब जेसी-759565पी), 24 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

शिवराज सिंह (सं. 14540030वाई अब जेसी-759563के), 25 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

भगवान स्वरूप पाल (सं. 14540784एन अब जेसी-759571एच), 28 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

जी बी चिनाईया (सं. 14539696एल अब जेसी-759568एच), 29 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×



रविश कुमार (सं. 14540452के अब जेसी-759569एल),  
29 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

बदन चन्द्रा बिस्वास (सं. 14540657वाई अब जेसी-759574डब्ल्यू),  
30 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

राम चरन (सं. 14540457ए अब जेसी-759562एफ), 31 दिसम्बर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

रामेश्वर सिंह (सं. 14540533के अब जेसी-759564एम), 01 जनवरी  
2005/01 अक्टूबर 2004×

पी लिंगाईया (सं. 14540513डब्ल्यू अब जेसी-759573एन),  
03 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार ईई मैक रैंक में

दरशन सिंह (सं. 14537467एफ अब जेसी-759467पी), 19 नवम्बर  
2004/03 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार व्ही एम (एम व्ही) के रैंक में

पुश्कर सिंह (सं. 14537586एक्स अब जेसी-759464एफ),  
26 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

नवाकिशोर पारही (सं. 14537679एम अब जेसी-759506एच),  
09 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

जॉय गोपाल मण्डल (सं. 14537810वाई अब जेसी-759508एन),  
17 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (आर) के रैंक में

उन्नोनि एस (सं. 14536623एन अब जेसी-759578एम),  
08 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (एल) के रैंक में

नगरकर भारत शंकर (सं. 14541047वाई अब जेसी-759704एन),  
15 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

जी सुधरसनन नायर (सं. 14556570एफ अब जेसी-759582पी),  
11 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

बलीराम सिंह यादव (सं. 14556642ए अब जेसी-759586एल),  
08 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एस के गुप्ता (सं. 14556347एक्स अब जेसी-759581एम),  
01 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

डी एल कश्यप (सं. 14556595एन अब जेसी-759584ए),  
03 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

साजि सिमन (सं. 14556624एक्स अब जेसी-759585एच),  
06 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार फिटर (ए एफ व्ही/एडी)

विपिन कुमार मोन्डल (सं. 14557622वाई अब जेसी-759466एम),  
09 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

बलदेव सिंह (सं. 14541498वाई अब जेसी-759471एक्स),  
20 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

बिर सिंह (सं. 14543986ए अब जेसी-759517पी),  
16 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

दिलीप कुमार घोष (सं. 14549575एक्स अब जेसी-759477वाई),  
24 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

बी सेट्टी (सं. 14554601एक्स अब जेसी-759511एन),  
13 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

परमेश्वर यादव (सं. 14555184एच अब जेसी-759478एफ),  
16 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में

जी अजया कुमार (सं. 14573646एम अब जेसी-759521एक्स),  
27 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

पी के मिश्रा (सं. 14603613वाई अब जेसी-759526डब्ल्यू),  
20 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

पी मोहन राज (सं. 14604284ए अब जेसी-759530वाई),  
11 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

देश राज ठकुर (सं. 14606832एल अब जेसी-759540एच),  
10 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

राजमोहन जग्गा (सं. 14607604पी अब जेसी-759544वाई),  
01 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

तुलसीदास महान्ता (सं. 14604516एन अब जेसी-759550एम),  
21 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

आर पी कुशवाह (सं. 14603913ए अब जेसी-759528एफ),  
22 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

रैपाकूला पिटचाईया (सं. 14607508ए अब जेसी-759595एम),  
14 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आर औ के रैंक में

जगदिश राय (सं. 14598048ए अब जेसी-759557डब्ल्यू),  
13 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

नन्द किशोर महान्ता (सं. 14604063एन अब जेसी-759558वाई),  
16 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रडार के रैंक में

रविकान्त यादव (सं. 14577950एन अब जेसी-759678एक्स),  
15 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

दिलीप कुमार वर्मा (सं. 14607803एच अब जेसी-759687वाई),  
15 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

अश्वनि कुमार (सं. 14611022एम अब जेसी-759689के),  
15 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

मान पाल सिंह (सं. 14585601वाई अब जेसी-759680पी),  
15 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

अशोक कुमार अवास्ती (सं. 14597563ए अब जेसी-759599एच),  
15 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

कल्लापा गुरव (सं. 14606321एफ अब जेसी-758685एन),  
19 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

सोमा श्रीनिवास (सं. 14606234एन अब जेसी-759684एल),  
13 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

श्वदेशे चौधरी (सं. 14607801एक्स अब जेसी-759686डब्ल्यू),  
13 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

रविन्दर कुमार (सं. 14577515वाई अब जेसी-759677पी),  
13 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

राम कुमार (सं. 14604547एन अब जेसी-759683एच),  
13 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

दिपक कुण्डू (सं. 14612872एच अब जेसी-759692के),  
15 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

पिताबासा साहू (सं. 14599236एन अब जेसी-759682ए),  
18 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

भूवन चन्द्रा जोशी (सं. 14608360वाई अब जेसी-759688एफ),  
14 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

प्रफूल चन्द पाल (सं. 14612870एक्स अब जेसी-759691एफ),  
20 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

अपूर्वा कुमार घोष (सं. 14612670एफ अब जेसी-759603ए),  
20 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

चान्दी प्रसाद तिवारी (सं. 14578620एफ अब जेसी-759679ए),  
17 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

राम भवन (सं. 14610438एक्स अब जेसी-759625वाई),  
20 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

किशोर दास (सं. 14597094एच अब जेसी-759671एन),  
15 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

अबिन्द्रा कुमार सिंह (सं. 14602754एफ अब जेसी-759653एल),  
17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2003×

रमेश चन्द यादव (सं. 14601127एच अब जेसी-759673वाई),  
19 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

बिनोद कुमार झा (सं. 14585537डब्ल्यू अब जेसी-759663पी),  
01 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

राधा कृष्णन के (सं. 14594710एम अब जेसी-759666एच),  
17 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

नारायण चन्द्रा सरकार (सं. 14597485एन अब जेसी-759672डब्ल्यू),  
22 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

उदय भान (सं. 14606591डब्ल्यू अब जेसी-759674एफ),  
15 जनवरी 2005/17 अक्तूबर 2004×

अवादेश दुबे (सं. 14605468एल अब जेसी-759623एन),  
16 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक एव्हीएफ एव्हीएन के रैंक में  
इन्द्रजीत (सं. 14569950वाई अब जेसी-759604एच), 16 जनवरी  
2005/01 नवम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी व्हीकल के रैंक में  
प्रबिर कुमार सहा (सं. 14589133एफ अब जेसी-759608वाई),  
17 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

छोटे लाल (सं. 14607608एल अब जेसी-759596पी),  
15 जनवरी 2005/01 अक्तूबर 2004×

गोपाल चन्द्रा दास (सं. 14605128एच अब जेसी-759522ए),  
22 दिसम्बर 2004/01 अक्तूबर 2004×

देव दत्त (सं. 14605807ए अब जेसी-759538एल), 07 जनवरी  
2005/01 अक्तूबर 2004×

राजविर (सं. 14607409एक्स अब जेसी-759545एफ),  
28 दिसम्बर 2004/01 अक्तूबर 2004×

अशोक कुमार (सं. 14603358एक्स अब जेसी-759589वाई),  
17 जनवरी 2005/01 अक्तूबर 2004×

देवि प्रसाद (सं. 14606460एल अब जेसी-759542एन),  
17 जनवरी 2005/01 अक्तूबर 2004×

भुनेश कुमार सिंह (सं. 14599366डब्ल्यू अब जेसी-759609एफ),  
17 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

बनवारी लाल गुजर (सं. 14607552के अब जेसी-759610डब्ल्यू),  
18 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

धरमाविर सिंह (सं. 14608732वाई अब जेसी-759630के),  
17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

साजी जोसेफ (सं. 14608184एम अब जेसी-759597एक्स),  
17 जनवरी 2005/01 अक्तूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए व्हीकल के रैंक में  
आनन्द सिंह रावत (सं. 14579318पी अब जेसी-759607डब्ल्यू),  
17 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

बद्री नाथ गुरुंग (सं. 14576681ए अब जेसी-759606एन),  
15 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

सिसोदिया दलजित सिन ए एस (सं. 14604543एक्स अब जेसी-759633एक्स), 15 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

सुरेश प्रभू टी (सं. 14573859ए अब जेसी-759637एन), 15 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

चन्दन कुमार सन्धा (सं. 14607869वाई अब जेसी-759634ए), 15 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

कुलदिप शर्मा (सं. 14568828डब्ल्यू अब जेसी-759636एल), 17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

रमानन जी (सं. 14579093एक्स अब जेसी-759642वाई), 19 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

सुनिल कुमार पान्डे (सं. 14570903एन अब जेसी-759635एच), 21 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट्रीशियन के रैंक में

बशिस्त दुबे (सं. 14582773एच अब जेसी-759647एक्स), 17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

शाम किशोर श्रीवास्तव (सं. 14610908एक्स अब जेसी-759645एम), 18 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ई एल एफ के रैंक में

राजिन्दर सिंह (सं. 14562480डब्ल्यू अब जेसी-759651ए), 17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

मुस्ताइम अन्सारी (सं. 14553549एन अब जेसी-759650एक्स), 17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक जीसीई के रैंक में

भनवर सिंह (सं. 14578618के अब जेसी-759600एम), 20 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

अज़िम खान (सं. 14541551वाई अब जेसी-759475एन), 22 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

खूम सिंह रावत (सं. 14535053डब्ल्यू अब जेसी-759499एक्स), 24 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

शाम बिहारी राय (सं. 14539205के अब जेसी-759698एल), 17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार व्ही एम (एम व्ही) के रैंक में

महेश चन्द शर्मा (सं. 14537707एन अब जेसी-759507एल), 01 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

देव सिंह (सं. 14537591एच अब जेसी-759505ए), 13 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

हजारा सिंह (सं. 14537357एम अब जेसी-759700एक्स), 17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

चन्द्रा पाल (सं. 14537876पी अब जेसी-759701ए), 22 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मेक के रैंक में

शाम सिंह (सं. 14553643एक्स अब जेसी-759513वाई), 11 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

प्रवीन कुमार (सं. 14553656पी अब जेसी-759514एफ), 12 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

हरeram प्रसाद (सं. 14547180एक्स अब जेसी-759703एल), 18 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक एव्हीएफ आईएन के रैंक में

राम करन करनावत (सं. 14572666एन अब जेसी-759605एल), 14 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रडार के रैंक में

दिनेश कुमार (सं. 14576337पी अब जेसी-759676एम), 14 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

बाबू लाल (सं. 14587045एम अब जेसी-759681एक्स), 27 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

राजेन्द्र सिंह (सं. 14606714एक्स अब जेसी-759654एन), 29 जनवरी 2005/06 मई 2004×

शिवजी यादव (सं. 14612875डब्ल्यू अब जेसी-759648ए), 16 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

गुलाब सिंह (सं. 14602991के अब जेसी-759656वाई), 24 जनवरी 2005/01 जून 2004×

विलास (सं. 14595590एल अब जेसी-759668एन), 19 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

दया शंकर (सं. 14567460एम अब जेसी-759652एच), 17 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

कजोतन नायक (सं. 14594254एच अब जेसी-759665ए), 24 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

राम केवल यादव (सं. 14605688पी अब जेसी-759660एफ), 21 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

जीवन सिंह (सं. 14592008एच अब जेसी-759664एक्स), 19 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

कृष्णा चन्द्रा दलेई (सं. 14595629एच अब जेसी-759669डब्ल्यू), 22 जनवरी 2005/17 अक्टूबर 2004×

कृष्णन एस (सं. 14605768एम अब जेसी-759621एच),  
27 जनवरी 2005/14 दिसम्बर 2004×

रमेश कुमार गुप्ता (सं. 14605661एक्स अब जेसी-759619एल),  
15 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

विजय कुमार (सं. 14609973एल अब जेसी-759624डब्ल्यू),  
24 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में

कुल्लु कुमार साहू (सं. 14597512एम अब जेसी-759588डब्ल्यू),  
18 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

सुनील कुमार चतुर्वेदि (सं. 14604568के अब जेसी-759592वाई),  
25 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

व्ही सत्य नारायण (सं. 14607897एल अब जेसी-759611वाई),  
25 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

श्री ओम प्रकाश सिंह (सं. 14604724एच अब जेसी-759534पी),  
14 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

बिमलेश कुमार (सं. 14604765एम अब जेसी-759591डब्ल्यू),  
18 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

रमेश कुमार यादव (सं. 14603986एम अब जेसी-759590एन),  
21 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

जितेन्द्रा कुमार शर्मा (सं. 14608082डब्ल्यू अब जेसी-759613के),  
29 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

प्रितपाल सिंह (सं. 14608699एम अब जेसी-759628एम),  
29 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

ओम प्रकाश जोशी (सं. 14608557पी अब जेसी-759598ए),  
19 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

विनोद कुमार (सं. 14607146के अब जेसी-759594के),  
18 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

सुरेन्द्रा कुमार (सं. 14608623एम अब जेसी-759615पी),  
20 जनवरी 2005/14 नवम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इन्सट्रुमेंट मेक के रैंक में

एम डी ताइमूर रहमान (सं. 14598804एफ अब जेसी-759693एम),  
15 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

हरी प्रकाश शर्मा (सं. 14600315एक्स अब जेसी-759694पी),  
15 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

बाबू जी (सं. 14603251एच अब जेसी-759640एन), 22 जनवरी  
2005/01 दिसम्बर 2004×

अशोक कुमार सिंह (सं. 14603276पी अब जेसी-759641डब्ल्यू),  
24 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

अरुण विट्ठल गोरे (सं. 14604119पी अब जेसी-759602एक्स),  
17 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

रमेश कुमार (सं. 14576472एच अब जेसी-759639वाई),  
17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट्रीशियन के रैंक में

चल्लाच सेकरा रेड्डी (सं. 14610227पी अब जेसी-759644के),  
19 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक सी वेहिकल के रैंक में

राम प्रकाश (सं. 14565313एल अब जेसी-759523एच),  
31 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए एफ एफ के रैंक में

जाधव मट्यात रे भव (सं. 14575444के अब जेसी-759648एच),  
31 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

×पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नाम पदोन्नति की तारीख

विद्या विलास मिश्रा (जेसी-758560के), 20 मार्च 2004

अजय कान्त शर्मा (जेसी-758561एम), 20 मार्च 2004

चन्द्रा देव मिश्रा (जेसी-758563एक्स), 20 मार्च 2004

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

-----

सं. 291, दिनांक 24 मई 2005—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम  
सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन ले. कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

आर शंकरन (एम आर-06039एच (75518) ए एम सी,  
01 दिसम्बर 2003

गगनदीप भानोट (एम आर-06138एल (75475) ए एम सी,  
03 जनवरी 2004

सर्जन ले. से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

गीतांजलि सिंह (एम आर-07237ए) (75683) ए एम सी,  
05 फरवरी 2004

आर आर पिषारोडी (एम आर-07241एच) (75684) ए एम सी,  
05 फरवरी 2004

फ्लाइट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

गुरप्रीत सिंह (एम आर-06618पी) (23059) ए एम सी,  
20 दिसम्बर 1999

शिव कुमार शर्मा  
ब्रिगेडियर

डिप्टी डीजीएफएमएस (पी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th June 2005

## ARMY BRANCH

## REGULAR ARMY

## ARMY SERVICE CORPS

## (SUPPLY)

No. 289, dated 20th May 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

## To be Sub : SKT

Nb Sub Sudhakar Desai (JC-641685W), 11 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Kashab Prasad Gupta (JC-641699W), 18 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Hari Singh (JC-641700A), 16 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Hari Singh (JC-641702L), 18 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Rama Shankar Choudhary (JC-641930N), 01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Surjeet Singh (JC-641879Y), 21 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Akhileshwar Singh (JC-641709P), 18 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Kedar Nath Singh (JC-641743P), 18 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ram Sagar (JC-641745A), 03 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Seva Singh (JC-641712P), 23 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Baseer Ahammad Nadaf (JC-641714A), 18 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Harcharan Singh (JC-641747L), 25 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Jagat Ram (JC-641748N), 01 Jan 2005

Nb Sub Indramani Singh (JC-641749W), 01 Jan 2005

Nb Sub Lakshmi Narain (JC-641715H), 01 Jan 2005

Nb Sub Ashok Kumar (JC-641716L), 01 Jan 2005

Nb Sub Radhakrishnan P (JC-641751N), 01 Jan 2005

Nb Sub Mortha Chitti Babu (JC-641587W), 01 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Rakesh Prasad (JC-641689M), 27 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Doodh Nath Singh (JC-641691K), 26 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Rattan Chand Dhiman (JC-641737F), 18 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Brij Mohan Singh (JC-641698N), 13 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Krishan Lal Puri (JC-641740F), 19 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Dharambir Singh (JC-641703N), 21 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Tej Singh (JC-641704W), 20 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Sukh Dev (JC-641708M), 22 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ashok Kumar Dwivedi (JC-641750L), 31 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allces)

## To be Naib Subedar : Clerk (GD)

Hav B N S Yadav (No. 6377643F now JC-663054N), 11 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allces)

Hav Ajay Kumar (No. 6378155L now JC-663055W), 04 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allces)

Hav Subhra Biswas (No. 6377612F now JC-663056Y), 05 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces)

Hav Islami Khan (No. 6378003K now JC-663057F), 01 Feb 2005

Hav Rameshwar Ohdar (No. 6378823P now JC-663058K), 02 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces)

Hav Pawan Kumar Singh (No. 6377301N now JC-663059M), 19 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces)

Hav Raj Kumar (No. 6378666P now JC-663060F), 01 Feb 2005

Hav R B Singh (No. 6385575N now JC-663061K), 21 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces)

Hav Balwan Singh (No. 6378441M now JC-663062M), 19 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces)

Hav Biswa Mohan Sahoo (No. 6386071M now JC-663063P), 19 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces)

Hav Raj Kishore Nayak (No. 6385958A now JC-663064X), 01 Feb 2005

Hav Santosh Kumar Sahu (No. 6386073X now JC-663065A), 01 Mar 2005

Hav Sukhbir Singh Dahiya (No. 6378110L now JC-663082A), 03 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces)

Hav Vijay Singh (No. 6377567A now JC-663083H), 21 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allces)

Hav Raj Bahadur (No. 6377163X now JC-663084L), 16 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces)

Hav Om Pal (No. 6377530Y now JC-663085N), 02 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces)

Hav Balam Singh Rawat (No. 6376997X now JC-663086W), 01 Feb 2005

Hav Zamirul Haque (No. 6378924K now JC-663087Y), 01 Feb 2005

Hav Arun Kumar Sahu (No. 6385955M now JC-663088F), 22 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces)

Hav Banshi Dhar Palai (No. 6385959X now JC-663089K), 01 Mar 2005

Hav Ghanashyam Barik (No. 6385960X now JC-663090Y), 01 Mar 2005

To be Nb Subedar : SKT

Hav Narayanan BT (No. 6376776L now JC-662999L), 24 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allces)

Hav S Mani (No. 6383706P now JC-663000M), 24 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Feb 2004 without effect on pay and allces)

Hav Sree Kumar R (No. 6383958F now JC-663001P), 25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Aug 2003 without effect on pay and allces)

Hav Indra Lal Verma (No. 6385029F now JC-663002X), 27 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allces)

Hav Manoj Kumar (No. 6383890L now JC-663003A), 25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 May 2004 without effect on pay and allces)

Hav Shinde Sanjay Sambhaji (No. 6384979K now JC-663004H), 26 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 May 2004 without effect on pay and allces)

Hav Girdhari Singh (No. 6385286Y now JC-663005L), 01 May 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allces)

Hav Madhu Kant Jha (No. 6384420M now JC-663006N),  
25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004  
without effect on pay and allces)

Hav S Deva Rajan (No. 6384286M now JC-663007W),  
25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Bakshish Singh (No. 6382938F now JC-663008Y),  
29 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Raut Dnyaneshwar Devidas (No. 6385524P now JC-  
663009F), 25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Shashank Kumar Ghosh (No. 6383425Y now JC-  
663010W), 31 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Rayipudi Sreenivasa Rao (No. 6384090Y now JC-  
663011Y), 31 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Shivaji Laxman Chavan (No. 6376876P now JC-  
663012F), 31 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004  
without effect on pay and allces)

Hav L Mohan Rao (No. 6385397W now JC-663013K),  
01 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Kailash Chand (No. 13975666W now JC-663014M),  
18 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Babban Singh (No. 6384369X now JC-663015P),  
24 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Balram Patter (No. 6384610Y now JC-663016X), 02  
Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allces)

Hav Benny (No. 6385373M now JC-663017A), 26 Jan  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allces)

Hav Brajesh Babu (No. 6385319Y now JC-663018H), 26  
Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allces)

Hav Shyam Shankar Das (No. 6384412N now JC-  
663019L), 01 Jan 2005

Hav George Philip (No. 6383973W now JC-663020A),  
24 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allces)

Hav CH VV Satyanarayana (No. 6384129A now JC-  
663021H), 27 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allces)

Hav Ashok Kumar (No. 6384798Y now JC-663022L), 01  
Jan 2005

Hav Panchi Lal (No. 6385258M now JC-663023N), 02  
Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allces)

Hav Dilip Kumar Tiwari (No. 6381763X now JC-  
663024W), 01 Feb 2005

Hav Karan Singh (No. 6376577X now JC-663040N), 07  
Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Suresh V (No. 6376934P now JC-663041W), 25 Jan  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Aug 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Rana Pravin Sinh Kirat Sinh (No. 6383248K now  
JC-663042Y), 24 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Subhash Chandra (No. 6384736Y now JC-663043F),  
07 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Sy Abdul Shah Sy Naimulla Shah (No. 6383178W  
now JC-663044K), 25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2004  
without effect on pay and allces)



Hav Rakesh Kumar (No. 6385451Y now JC-663045M),  
25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Fateh Singh Sura (No. 6384801N now JC-663046P),  
27 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Sunder Lal (No. 6384808X now JC-663047X), 25  
Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Abraham Tharakan (No. 6384618L now JC-  
663048A), 26 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Radhakrishnan G (No. 6382160N now JC-663049H),  
03 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Brahm Prakash (No. 6383763W now JC-663050X),  
31 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Suvankar Choudhury (No. 6381264H now JC-  
663051A), 31 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004  
without effect on pay and allces)

Hav Binod Kumar Singh (No. 6383898X now JC-  
663052H), 25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allces)

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 6384340P now JC-  
663053L), 31 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allces)

M. M. SINGH  
Under Secy.

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 290, dated the 19th May 2005.—The President is  
pleased to make the following promotions:—

To be Sub Maj Technical

Sub Uma Kant (JC-747575M), 13 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Sub Krishna Prasad Pandey (JC-747760A), 01 Jan 2005

Sub Ram Pratap Upadhyay (JC-222217N), 20 Jan 2005/  
01 Jan 2005\*

Sub Jagannath Prasad (JC-747648N), 05 Jan 2005/01  
Jan 2005\*

Sub Aruni Kumar Das (JC-747734Y), 01 Feb 2005

Sub Narayanan EV (JC-747408N), 17 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

Sub Naba Kishore Mohanty (JC-747807A), 27 Jan 2005/  
01 Jan 2005\*

To be Sub Maj Artzn (EC)

Sub Francis PV (JC-750333P), 10 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Sub Satindra Singh (JC-750683F), 31 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

To be Sub Maj SKT

Sub Ramdewa Ram (JC-748557W), 12 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

Sub Ravi Kumaran T (JC-748120H), 11 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

To be Sub Maj Rec Mech

Sub Raj Kumar Ram (JC-748024N), 18 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

To be Sub Technical

Nb Sub LCSP Raj Bhar (JC-755003A), 06 Sep 2004/01  
Aug 2004\*

Nb Sub Hari Kishan (JC-755254K), 11 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

Nb Sub Subal Kishore Pal (JC-755224M), 01 Jan 2005/  
01 Oct 2004\*

Nb Sub RB Pareek (JC-753882A), 15 Jan 2005/23 Jun  
2004\*

Nb Sub Madan Gupta (JC-755310X), 01 Jan 2005

Nb Sub NK Swain (JC-755669Y), 14 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

Nb Sub P Veerappan (JC-755286M), 18 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

Nb Sub Dr. Radhakrishnan (JC-755242P), 19 Jan 2005/  
01 Dec 2004\*

Nb Sub SS Karnure (JC-754389Y), 19 Jan 2005/01 Nov  
2003\*

Nb Sub Samarpal Singh (JC-755453X), 01 Feb 2005\*

Nb Sub Balram (JC-755006N), 01 Jan 2005/23 Jun 2004\*

Nb Sub Upinder Kumar (JC-754801F), 27 Dec 2004/23  
Jun 2004\*

Nb Sub Balbir Singh (JC-755309H), 01 Jan 2005



Nb Sub TP Bhattarai (JC-755706F), 01 Jan 2005

Nb Sub Pala Ram (JC-755250N), 01 Jan 2005

Nb Sub Shiv Narayan Dudi (JC-755248W), 01 Jan 2005

Nb Sub Tarun Chandra Das (JC-751404X), 18 Jan 2005/  
23 Jun 2004\*

Nb Sub Thakore SV (JC-755336M), 20 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

Nb Sub AK Kushwaha (JC-755461W), 01 Feb 2005

Nb Sub PS Gladwin (JC-755447K), 01 Feb 2005

Nb Sub Mali Bajira O Nivritti (JC-755456L), 01 Feb 2005

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-755457N), 01 Feb 2005

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Sabhapati Yadav (JC-756967F), 01 Jan 2005/  
01 Jun 2004\*

Nb Sub Dina Bandhu Pal (JC-757275Y), 01 Feb 2005

Nb Sub Prakash Chandra (JC-757234P), 01 Feb 2005

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Sant Ram (JC-753771H), 09 Oct 2004/01 Aug  
2004\*

Nb Sub Bigan Das (JC-754175H), 12 Jan 2005/01 Dec  
2004\*

Nb Sub Gyan Singh (JC-753772L), 31 Jan 2005/01 Sep  
2004\*

Nb Sub Hans Raj (JC-754242H), 01 Feb 2005

Nb Sub KK Chowdhary (JC-754485N), 01 Feb 2005

To be Sub Tech (AVN)

Nb Sub Ardhendu Ghosh (JC-755608F), 01 Feb 2005

To be Sub Clerk (GD)

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-753780K), 05 Jan 2005/  
01 Jan 2005\*

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-753327M), 26 Jan 2005/  
23 Nov 2004\*

To be Sub DW

Nb Sub Swapan Kumar Jash (JC-756557L), 14 Jan 2005/  
01 Sep 2004\*

Nb Sub Bharat Singh Yadav (JC-757049F), 01 Feb 2005

Hav to be Nb Sub Cjk (GD)

A Roy (No. 14554301W now JC-759515K), 09 Dec 2004/  
01 Nov 2004\*

Rajendra Prasad Mishra (No. 14556028L now JC-  
759516M), 07 Dec 2004/01 Nov 2004\*

Md Aslam (No. 14555374P now JC-759431Y), 03 Dec  
2004/01 Oct 2004\*

Lalji Yadav (No. 14554395Y now JC-759479K), 27 Nov  
2004/01 Oct 2004\*

Randip Singh (No. 14555675Y now JC-759482K),  
22 Nov 2004/01 Oct 2004\*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Rajpal Singh (No. 14541656H now JC-759497M),  
10 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Hav to be Nb Sub Welder

M Francis Paul Sundaraj (No. 14546863Y now JC-  
759490H), 20 Nov 2004/01 Oct 2004\*

B Mruthyumjaya Reddy (No. 14546678L now JC-  
759489H), 01 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Hav to be Nb Sub AVF (AF)

K Vijay Kumar Ramdas (No. 14538113L now JC-  
759470P), 11 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Hav to be Nb Sub SKT

SS Islam (No. 14543202N now JC-759473H), 21 Nov  
2004/01 Oct 2004\*

Hav to be Nb Sub FTR (AFV/AD)

Mabud Ali (No. 14556910N now JC-759465K), 29 Nov  
2004/01 Oct 2004\*

Hav to be Nb Sub Mech

Azim Khan (No. 14541551Y now JC-759575N), 22 Nov  
2004/01 Oct 2004\*

Hav to be Nb Sub Rec Mech

K A Ahmed (No. 14555253N now JC-759512W), 11 Dec  
2004/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech B Veh

Aiyappa (No. 14605368A now JC-759536A), 22 Dec  
2004/01 Oct 2004\*

Muraleedharan M B (No. 14604604K now JC-759533M),  
18 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Shrisant Ram Nagayach (No. 14603558N now JC-  
759524L), 16 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Shree Kant Singh (No. 14607802A now JC-759546K),  
11 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Om Prakash Singh (No. 14605197Y now JC-759537H),  
24 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Giridhari Lal Gurjar (No. 14608018Y now JC-759548P),  
14 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Paramjit (No. 14603749N now JC-759525N), 13 Dec  
2004/01 Oct 2004\*

Ramanand Yadav (No. 14604593H now JC-759532K),  
08 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Gobind Narayan Prasad (No. 14591889A now JC-759519A), 16 Dec 2004/10 Jun 2004\*

Mathew S (No. 14608170M now JC-759547M), 21 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Surendra Kumar (No. 14603817K now JC-759527Y), 13 Dec 2004/01 Oct 2004\*

George MK (No. 14592094Y now JC-759520P), 15 Dec 2004/10 Jun 2004\*

Yogesh Kumar Tripathi (No. 14606712M now JC-759541L), 18 Dec 2004/01 Oct 2004\*

R Ravi (No. 14604290N now JC-759531F), 23 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Shammi Raina (No. 14605244L now JC-759535X), 11 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Manoj Shukla (No. 14604148K now JC-759529K), 13 Dec 2004/01 Oct 2004\*

#### HMT to be Nb Sub Tech A Veh

Satpal Singh (No. 14611227F now JC-759518X), 13 Dec 2004/06 May 2004\*

Gurjant Singh (No. 14580255K now JC-759549X), 15 Dec 2004/01 Oct 2004\*

#### HMT to be Nb Sub Tech RO

Elumalai K (No. 14584666A now JC-759551P), 13 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Kripa Nand Mishra (No. 14588832A now JC-759552X), 21 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Ranvir Singh (No. 14590411W now JC-759553A), 09 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Mahindiran M (No. 14596962X now JC-759554H), 13 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Phool Kumar Singh (No. 14597231W now JC-759555L), 13 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Abdul Sabur Barbhuiya (No. 14597892W now JC-759556N), 11 Dec 2004/01 Oct 2004\*

#### HMT to be Nb Sub Tech Comp

Gurme Dilip Pandarinath (No. 14595042N now JC-759408H), 16 Nov 2004/01 Oct 2003\*

#### HMT to be Nb Sub Tech Elect

Umesh Kumar Singh Yadav (No. 14591466M now JC-759560W), 13 Dec 2004/03 Oct 2004\*

Sanjay Singh (No. 14591325X now JC-759559F), 17 Dec 2004/03 Oct 2004\*

#### HMT to be Nb Sub Tech GCE

Vinothan G (No. 14596767A now JC-759561Y), 13 Dec 2004/01 Nov 2003\*

#### To be Sub Technical

Nb Sub B Barman (JC-755312H), 01 Jan 2005

Nb Sub Hakim Singh (JC-754798M), 08 Dec 2004/01 Jan 2004\*

Nb Sub P R Singh (JC-755489W), 01 Jan 2005

Nb Sub Anandan M (JC-755234W), 25 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Nb Sub A K Jha (JC-755251W), 01 Jan 2005

Nb Sub Jahan Singh (JC-755141F), 31 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Nb Sub Ram Niwas (JC-755005L), 01 Jan 2005/23 Jun 2004\*

Nb Sub Hari Karan Singh (JC-755252Y), 01 Jan 2005

Nb Sub A Prakash Rao (JC-755247N), 03 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Nb Sub S N Singh (JC-755311A), 01 Jan 2005

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-755249Y), 01 Jan 2005

#### To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Tarkeshwar Singh (JC-756966Y), 01 Jan 2005/01 Jun 2004\*

Nb Sub EB Jayant (JC-756969N), 01 Jan 2005/01 Jun 2004\*

Nb Sub Chantan Singh (JC-757091A), 25 Oct 2004/01 Sep 2004\*

Nb Sub Viswanath Singh (JC-757054M), 01 Jan 2005/01 Jun 2004\*

#### To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub PS Daulat (JC-754037F), 07 Dec 2004/01 Nov 2004\*

#### To be Sub Tech (Avn)

Nb Sub Arvind Kumar (JC-755399P), 01 Jan 2005

#### To be Sub Clerk (GD)

Nb Sub Ram Niwas (JC-753709W), 09 Dec 2004/01 Oct 2004\*

#### To be Sub (DW)

Nb Sub Durga Prasad (JC-756982W), 01 Jan 2005

Nb Sub Ram Saran (JC-756977L), 01 Dec 2004

Nb Sub Suraj Bhan (JC-756946L), 28 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Punwasi (JC-756980L), 01 Jan 2005

Nb Sub Bhawani Mishra (JC-756979W), 01 Jan 2005

Nb Sub Surendra Nath Tripathi (JC-756981N), 03 Jan 2005/01 Jan 2005\*

## To be Sub Religious Teacher

Nb Sub Rajesh Kumar Mishra (JC-749322W), 12 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Som Sharma (JC-750700W), 10 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Ram Bhakt Tripathi (JC-750697F), 27 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Pradip Kumar Tiwari (JC-749321N), 31 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Jayashankar Upadhyay (JC-749323Y), 11 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Manoj Kumar Pandey (JC-749319W), 13 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Brij Mohan Sharma (JC-750702F), 09 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Dinesh Kumar Dubey (JC-749189Y), 13 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Chandra Dhar Pandey (JC-749320K), 11 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Dev Narayan Mishra (JC-749324F), 11 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Ram Pravesh Mishra (JC-750701Y), 24 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Nb Sub Govind Prasad Chaturvedi (JC-750696Y), 06 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Nb Sub Shiv Shankar Singh (JC-750699M), 16 Dec 2004/01 Dec 2004\*

## Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Fazal Hussain (No. 14549047W now JC-759496K), 22 Nov 2004/01 Oct 2004\*

TP Singh (No. 14540591N now JC-759570A), 24 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Ravindran K (No. 14540502K now JC-759565P), 24 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Shivraj Singh (No. 14540030Y now JC-759563K), 25 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Bhagwan Swarup Pal (No. 14540784N now JC-759571H), 28 Dec 2004/01 Dec 2004\*

G B Chinnaiah (No. 14539696L now JC-759568H), 29 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Ravish Kumar (No. 14540452K now JC-759569L), 29 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Badhan Chandra Biswas (No. 14540657Y now JC-759574W), 30 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Ram Charan (No. 14540457A now JC-759562F), 31 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Rameshwar Singh (No. 14540533K now JC-759564M), 01 Jan 2005/01 Oct 2004\*

P Lingaiah (No. 14540513W now JC-759573N), 03 Jan 2005/01 Dec 2004\*

## Hav to be Nb Sub EE Mech

Darshan Singh (No. 14537467F now JC-759467P), 19 Nov 2004/03 Oct 2004\*

## Hav to be Nb Sub VM (MV)

Pushkar Singh (No. 14537586X now JC-759464F), 26 Nov 2004/01 Oct 2004\*

Navakishore Parhi (No. 14537679M now JC-759506H), 09 Dec 2004/01 Nov 2004\*

Joy Gopal Mandal (No. 14537810Y now JC-759508N), 17 Dec 2004/01 Nov 2004\*

## Hav to be Nb Sub TCM (R)

Unnooni S (No. 14536623N now JC-759578M), 08 Jan 2005/01 Nov 2004\*

## Hav to be Nb Sub TCM (L)

Nagarkar Bharat Shankar (No. 14541047Y now JC-759704N), 15 Jan 2005/01 Dec 2004\*

## Hav to be Nb Sub Clk (GD)

G Sudharsanan Nair (No. 14556570F now JC-759582P), 11 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Baliram Singh Yadav (No. 14556642A now JC-759586L), 08 Jan 2005/01 Dec 2004\*

SK Gupta (No. 14556347X now JC-759581M), 01 Jan 2005/01 Dec 2004\*

DL Kashyap (No. 14556595N now JC-759584A), 03 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Shaji Simon (No. 14556624X now JC-759585H), 06 Jan 2005/01 Dec 2004\*

## Hav to be Nb Sub Ftr (AFV/AD)

Vipin Kumar Mondal (No. 14557622Y now JC-759466M), 09 Dec 2004/01 Oct 2004\*

## Hav to be Nb Sub Skt

Baldev Singh (No. 14541498Y now JC-759471X), 20 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Bir Singh (No. 14543986A now JC-759517P), 16 Dec 2004/01 Oct 2004\*

## Hav to be Nb Sub Rec Mech

Dilip Kumar Ghosh (No. 14549575X now JC-759477Y), 24 Nov 2004/01 Oct 2004\*

B Settu (No. 14554601X now JC-759511N), 13 Dec 2004/01 Nov 2004\*

Parmeshwar Yadav (No. 14555184H now JC-759478F), 16 Dec 2004/01 Oct 2004\*

## HMT to be Nb Sub Tech B Veh

G Ajaya Kumar (No. 14573646M now JC-759521X), 27 Dec 2004/01 Oct 2004\*

P K Mishra (No. 14603613Y now JC-759526W),  
20 Dec 2004/01 Oct 2004\*

P Mohan Raj (No. 14604284A now JC-759530Y),  
11 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Desh Raj Thakur (No. 14606832L now JC-759540H),  
10 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Rajmohan Jaga (No. 14607604P now JC-759544Y),  
01 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Tulasidas Mahanta (No. 14604516N now JC-759550M), 21 Dec 2004/01 Oct 2004\*

R P Kushwaha (No. 14603913A now JC-759528F),  
22 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Repakula Pitchaiah (No. 14607508A now JC-759595M), 14 Jan 2005/01 Oct 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech RO

Jagdish Rai (No. 14598048A now JC-759557W),  
13 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Nanda Kishore Mahanta (No. 14604063N now JC-759558Y), 16 Dec 2004/01 Oct 2004\*

HMT to be Nb Sub Radar

Ravikant Yadav (No. 14577950N now JC-759678X),  
15 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Dilip Kumar Verma (No. 14607803H now JC-759687Y), 15 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Ashwani Kumar (No. 14611022M now JC-759689K),  
15 Jan 2005/01 Nov 2004\*

Man Pal Singh (No. 14585601Y now JC-759680P),  
15 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Ashok Kumar Awasthi (No. 14597563A now JC-759599H), 15 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Kallappa Gurav (No. 14606321F now JC-759685N),  
19 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Soma Sreenivas (No. 14606234N now JC-759684L),  
13 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Swadeshray Chaudhury (No. 14607801X now JC-759686W), 13 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Ravinder Kumar (No. 14577515Y now JC-759677P),  
13 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Ram Kumar (No. 14604547N now JC-759683H),  
13 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Dipak Kundu (No. 14612872H now JC-759692K),  
15 Jan 2005/01 Nov 2004\*

Pitabasa Sahoo (No. 14599236N now JC-759682A),  
18 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Bhuvan Chandra Joshi (No. 14608360Y now JC-759688F), 14 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Praful Chand Pal (No. 14612870X now JC-759691F),  
20 Jan 2005/01 Nov 2004\*

Apurvba Kumar Ghosh (No. 14612670F now JC-759603A), 20 Jan 2005/01 Nov 2004\*

Chandi Prasad Tiwari (No. 14578620F now JC-759679A),  
17 Jan 2005/17 Oct 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech Gun

Ram Bhawan (No. 14610438X now JC-759625Y), 20 Jan 2005/14 Nov 2004\*

Kishore Das (No. 14597094H now JC-759671N), 15 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Abindra Kumar Singh (No. 14602754F now JC-759653L),  
17 Jan 2005/01 Dec 2003\*

Ramesh Chand Yadav (No. 14601127H now JC-759673Y), 19 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Binod Kumar Jha (No. 14585537W now JC-759663P),  
01 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Radha Krishnan K (No. 14594710M now JC-759666H),  
17 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Narayan Chandra Sarkar (No. 14597485N now JC-759672W), 22 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Uday Bhan (No. 14606591W now JC-759674F), 15 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Awadhesh Dubey (No. 14605468L now JC-759623N),  
16 Jan 2005/14 Nov 2004\*

HMT to be Nb Sub Avraen (Tech)

Indrajeet Singh (No. 14569950Y now JC-759604H),  
16 Jan 2005/01 Nov 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech B Veh

Prabir Kumar Saha (No. 14589133F now JC-759608Y),  
17 Jan 2005/14 Nov 2004\*

Chhote Lal (No. 14607608L now JC-759596P), 15 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Gopal Chandra Das (No. 14605128H now JC-759522A),  
22 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Dev Datt (No. 14605807A now JC-759538L), 07 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Rajvir (No. 14607409X now JC-759545F), 28 Dec 2004/  
01 Oct 2004\*

Ashok Kumar (No. 14603358X now JC-759589Y),  
17 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Devi Prasad (No. 14606460L now JC-759542N), 17 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Bhunesh Kumar Singh (No. 14599366W now JC-759609F), 17 Jan 2005/14 Nov 2004\*

Banwari Lal Gujar (No. 14607552K now JC-759610W),  
18 Jan 2005/14 Nov 2004\*

Dharmabir Singh (No. 14608732Y now JC-759630K),  
17 Jan 2005/01 Dec 2004\*

• Shaji Joseph (No. 14608184M now JC-759597X), 17 Jan  
• 2005/01 Oct 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech A Veh

Anand Singh Rawat (No. 14579318P now JC-759607W),  
17 Jan 2005/14 Nov 2004\*

Badri Nath Gurung (No. 14576681A now JC-759606N),  
15 Jan 2005/14 Nov 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech Radio

Sisodia Daljit Sinh AS (No. 14604543X now JC-  
759633X), 15 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Suresh Prabhu T (No. 14573859A now JC-759637N), 15  
Jan 2005/01 Dec 2004\*

Chandan Kumar Sandha (No. 14607869Y now JC-  
759634A), 15 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Kuldeep Sharma (No. 14568828W now JC-759636L), 17  
Jan 2005/01 Dec 2004\*

Ramanan G (No. 14579093X now JC-759642Y), 19 Jan  
2005/14 Nov 2004\*

Sushil Kumar Pandey (No. 14570903N now JC-759635H),  
21 Jan 2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

Bashisth Dubey (No. 14582773H now JC-759647X), 17  
Jan 2005/01 Dec 2004\*

Shyam Kishore Shrivastawa (No. 14610908X now JC-  
759645M), 18 Jan 2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech ELF

Rajinder Singh (No. 14562480W now JC-759651A), 17  
Jan 2005/01 Dec 2004\*

Mustauim Ansari (No. 14553549N now JC-759650X),  
17 Jan 2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech GCE

Bhanwar Singh (No. 14578618K now JC-759600M), 20  
Jan 2005/17 Oct 2004\*

\*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Mach

Azim Khan (No. 14541551Y now JC-759475N), 22 Nov  
2004/01 Oct 2004\*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Khoom Singh Rawat (No. 14535053W now JC-759499X),  
24 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Shyam Bihari Rai (No. 14539205K now JC-759698L),  
17 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Mahesh Chand Sharma (No. 14537707N now JC-  
759507L), 01 Dec 2004/01 Nov 2004\*

Dev Singh (No. 14537591H now JC-759505A), 13 Dec  
2004/01 Nov 2004\*

Hazara Singh (No. 14537357M now JC-759700X), 17  
Jan 2005/01 Dec 2004\*

Chandra Pal (No. 14537876P now JC-759701A), 22 Jan  
2005/01 Dec 2004\*

Hav to be Nb Sub Rec Mech

Shyam Singh (No. 14553643X now JC-759513Y), 11  
Dec 2004/01 Nov 2004\*

Praveen Kumar (No. 14553656P now JC-759514F), 12  
Dec 2004/01 Nov 2004\*

Hav to be Nb Sub Welder

Hareram Prasad (No. 14547180X now JC-759703L), 18  
Jan 2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub AVFAEN

Ram Karan Karnawat (No. 14572666N now JC-759605L),  
14 Jan 2005/01 Nov 2004\*

HMT to be Nb Sub Radar

Dinesh Kumar (No. 14576337P now JC-759676M), 14  
Jan 2005/17 Oct 2004\*

Babu Lal (No. 14587045M now JC-759681X), 27 Jan  
2005/17 Oct 2004\*

Rajender Singh (No. 14606714X now JC-759654N), 29  
Jan 2005/06 May 2004\*

Shivji Yadav (No. 14612875W now JC-759648A), 16 Jan  
2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Gun

Gulab Singh (No. 14602991K now JC-759656Y), 24 Jan  
2005/01 Jun 2004\*

Vilas (No. 14595590L now JC-759668N), 19 Jan 2005/  
17 Oct 2004\*

Daya Shankar (No. 14567460M now JC-759652H), 17  
Jan 2005/17 Oct 2004\*

Kajotan Nayak (No. 14594254H now JC-759665A), 24  
Jan 2005/17 Oct 2004\*

Ram Kewal Yadav (No. 14605688P now JC-759660F),  
21 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Jeevan Singh (No. 14592008H now JC-759664X), 19 Jan  
2005/17 Oct 2004\*

Krishna Chandra Dalei (No. 14595629H now JC-  
759669W), 22 Jan 2005/17 Oct 2004\*

Krishnan S (No. 14605768M now JC-759621H), 27 Jan  
2005/14 Dec 2004\*

Ramesh Kumar Gupta (No. 14605661X now JC-759619L), 15 Jan 2005/14 Nov 2004\*

Vijay Kumar (No. 14609973L now JC-759624W), 24 Jan 2005/14 Nov 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech B Veh

Prafulla Kumar Sahoo (No. 14597512M now JC-759588W), 18 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Suneel Kumar Chaturvedi (No. 14604568K now JC-759592Y), 25 Jan 2005/01 Oct 2004\*

V Satya Narayana (No. 14607897L now JC-759611Y), 25 Jan 2005/14 Nov 2004\*

Sri Om Prakash Singh (No. 14604724H now JC-759534P), 14 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Bimlesh Kumar (No. 14604765M now JC-759591W), 18 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Ramesh Kumar Yadav (No. 14603986M now JC-759590N), 21 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Jitendra Kumar Sharma (No. 14608082W now JC-759613K), 29 Jan 2005/14 Nov 2004\*

Pritpal Singh (No. 14608699M now JC-759628M), 29 Jan 2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech B Veh

Om Prakash Joshi (No. 14608557P now JC-759598A), 19 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Vinod Kumar (No. 14607146K now JC-759594K), 18 Jan 2005/01 Oct 2004\*

Surendra Kumar (No. 14608623M now JC-759615P), 20 Jan 2005/14 Nov 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech INST

Md Taimur Rahman (No. 14598804F now JC-759693M), 15 Jan 2005/01 Nov 2004\*

Hari Prakash Sharma (No. 14600315X now JC-759694P), 15 Jan 2005/01 Nov 2004\*

Babu G (No. 14603251H now JC-759640N), 22 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Ashok Kumar Singh (No. 14603276P now JC-759641W), 24 Jan 2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech Radio

Arun Vithal Gore (No. 14604119P now JC-759602X), 17 Jan 2005/01 Nov 2004\*

Ramesh Kumar (No. 14576472H now JC-759639Y), 17 Jan 2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

Challach Sekhara Reddy (No. 14610227P now JC-759644K), 19 Jan 2005/01 Dec 2004\*

HMT to be Nb Sub Tech X C Veh

Ram Prakash (No. 14565313L now JC-759523H), 31 Jan 2005/01 Oct 2004\*

HMT to be Nb Sub X Tech AFF

Jadav Mattat Ray Bhav (No. 14575444K now JC-759648H), 31 Jan 2005/01 Dec 2004\*

\*(Gtd ante dated seniority)

Special List

(To be Nb Sub Religious Teachers)

Vidya Vilas Mishra (JC-758560K), 20 Mar 2004

Ajay Kant Sharma (JC-758561M), 20 Mar 2004

Chandra Deo Mishra (JC-758563X), 20 Mar 2004

N. K. KASHMIRA  
Under Secy.

No. 291, dated the 24th May 2005.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against them:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Surg Lt Cdr to Surg Cdr

R Shankaran (MR-06039H) (75518), AMC—01 Dec 2003

Gagandeep Bhanot (MR-06138L) (75475), AMC—03 Jan 2004

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Geetanjali Singh (MR-07237A) (75683), AMC—05 Feb 2004

R R Pisharody (MR-07241H) (75684), AMC—05 Feb 2004

Flt Lt to be Sqd Ldr

Gurpreet Singh (MR-06618P) (23059), AMC—20 Dec 1999

SHIV KUMAR SHARMA  
Brig  
Dy. DGAFMS (P)